

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 562]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 8 सितम्बर 2022 — भाद्रपद 17, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2022

क्र. 9915/डी. 95/21-अ/प्रारू./छ.ग./22. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 23-08-2022 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम (क्रमांक 13 सन् 2022)

छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) अधिनियम, 2022.

छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्र. 12 सन् 1999) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- | | | |
|---------------------------|----|---|
| संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. | 1. | (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहलायेगा।
(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। |
| धारा 2 का संशोधन. | 2. | छत्तीसगढ़ आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्र. 12 सन् 1999), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,-
(एक) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् -
“(ग) “कलेक्टर” का वही अर्थ होगा, जो उसके लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 11 में समनुदेशित है;”
(दो) खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाये, अर्थात् :-
“(छ) “अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)” का वही अर्थ होगा, जो उसके लिए छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 11 में समनुदेशित है;” |
| धारा 4 का संशोधन. | 3. | मूल अधिनियम की धारा 4 में,-
(एक) उप-धारा (1) में, शब्द “कलेक्टर” के स्थान पर, शब्द “अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)” प्रतिस्थापित किया जाये।
(दो) उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-
“(2) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ऐसे नियमों के अनुसार, जो कि विहित किये जायें, आवेदन की |

जांच करायेगा तथा राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर विचार कर अनुज्ञा देने के संबंध में निर्णय करेगा।”

(तीन) उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—

“(3) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा, आवेदन पर निर्णय, अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित समय-सीमा एवं प्रक्रिया के अनुसार लिया जायेगा।”

4. मूल अधिनियम की धारा 5 का लोप किया जाये।

धारा 5 का विलोपन.

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

धारा 6 का संशोधन.

“(6) भूमिस्वामी को प्रतिफल का भुगतान.—भूमिस्वामी को देय प्रतिफल की राशि का भुगतान, अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार किया जायेगा।”

6. मूल अधिनियम की धारा 8 में, शब्द “कलेक्टर” के स्थान पर, शब्द “अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)” प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 8 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 9 में, —

धारा 9 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (1) में, शब्द “दस हजार रुपये” के स्थान पर, शब्द “एक लाख रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये।

(दो) उप-धारा (2) में, शब्द “कलेक्टर” के स्थान पर, शब्द “अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)” तथा शब्द “पचास हजार रुपये” के स्थान पर, शब्द “पांच लाख रुपये” प्रतिस्थापित किया जाये।

(तीन) उप-धारा (3) तथा (4) का लोप किया जाये।

अटल नगर, दिनांक 8 सितम्बर 2022

क्र. 9915/डी. 95/21-अ/प्रारू./छ.ग./22. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संमसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-09-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश कुमार काटिया, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 13 of 2022)

**THE CHHATTISGARH ADIM JAN JATIYON KA
SANRAKSHAN (VRAKSHON ME HIT) (SANSHODHAN)
ADHINIYAM, 2022.**

An Act further to amend the Chhattisgarh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Adhiniyam, 1999 (No.12 of 1999).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-third Year of the Republic of India, as follows:-

**Short title and
commencement.**

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2022.
- (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**Amendment
of Section 2.**

2. In Section 2 of the Chhattisgarh Adim Jan Jatiyon Ka Sanrakshan (Vrakshon Me Hit) Adhiniyam, 1999 (No. 12 of 1999), (hereinafter referred to as the Principal Act),-

- (i) for clause (c), the following shall be substituted, namely:-

“(c) “Collector” shall have the same meaning as assigned to it in Section 11 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);”

- (ii) after clause (f), the following clause shall be added, namely :-

"(g)"Sub-Divisional Officer (Revenue)" shall have the same meaning as assigned to it in Section 11 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);"

3. In Section 4 of the Principal Act,-

**Amendment
of Section 4.**

- (i) in sub-section (1), for the word "Collector", the words, "Sub-Divisional Officer (Revenue)" shall be substituted.

- (ii) for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The Sub-Divisional Officer (Revenue) shall get the application scrutinized in accordance with such rules as may be prescribed and shall decide about providing permission on considering the joint enquiry report of the Revenue Department and the Forest Department."

- (iii) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:-

“(3) The decision on application by Sub-Divisional Officer (Revenue) shall be taken in time limit and as per procedure prescribed by rules made under this Act.”

Omission of Section 5.

4. Section 5 of the Principal Act shall be omitted.

Amendment of Section 6.

5. For Section 6 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“6. Payment of consideration of the Bhumiswami.- Payment of amount of the consideration payable to the Bhumiswami shall be done as per the rules and procedures made under this Act.”

Amendment of Section 8.

6. In Section 8 of the Principal Act, for the word "Collector", the words "Sub-Divisional Officer (Revenue)" shall be substituted.

Amendment of Section 9.

7. In Section 9 of the Principal Act,-
- (i) in sub-section (1), for the words "ten thousand rupees", the words "one lakh rupees" shall be substituted.
 - (ii) in proviso to sub-section (2), for the words "Rupees Fifty Thousand", the

words "five lakh rupees" and for the word "Collector", the words "Sub-Divisional Officer (Revenue)" shall be substituted.

(iii) sub-section (3) and (4) shall be omitted.